

Class Notes	
कक्षा : पाँचवीं	शीर्षक : पाठ 9 एक माँ की बेबसी
विषय : हिंदी	

## पाठ 9

### एक माँ की बेबसी

नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए-

**प्रश्न 5-** जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस-किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है ?

उत्तर- बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है -

1. वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं ।
2. उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं ।
3. उसके मित्र बन पाएँगे या नहीं ।
4. बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं ।

**प्रश्न 6-** “याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी” रतन की माँ की आँखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी ?

उत्तर- रतन की माँ जब अन्य बच्चों को बोलते देखती होगी, तो उन्हें रतन के न बोलने पर बहुत दुख होता होगा, यही बेबसी उनकी आँखों में झलकती होगी ।

प्रश्न7- अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो ?

उत्तर- (क) मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ ।

(ख) माँ मुझे इसलिए डाँटती हैं क्योंकि कभी-कभी मैं बहुत शैतानी करता हूँ । उनकी बात नहीं सुनता ।

(ग) मेरी माँ चाहती है कि मैं अच्छी तरह रहूँ । कोई ऐसा काम न करूँ, जिससे सभी लोग मुझे डाँटे ।

(घ) माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती हैं, जब मैं उन्हें तंग करता हूँ । उनकी कोई बात नहीं मानता हूँ ।

(ङ) मैं चाहती/ता हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहें और मुझे बहुत प्यार करें ।

प्रश्न8- 'बेबस' शब्द 'बे' और 'वश' को जोड़कर बना है यहाँ 'बे' का अर्थ बिना है । नीचे दिए गए शब्दों में यही 'बे' छिपा है । इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो ? बेजान बेचैन..... बेसहारा बेहिसाब.....

उत्तर- बेजान, बेचैन, बेईमान, बेशर्म, बेनाम, बेसहारा, बेहिसाब, बेमिसाल, बेघर, बेजोड़ ।

सीखने की संप्राप्ति

प्रश्न 1- 'माँ की बेबसी' पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है ।

प्रश्न 2- 'माँ' विषय पर अनुच्छेद लिखिए ।

+++++

\*\*\*\*\*

\*\*\*

\*\*\*\*\*

निर्देश -1. लेखन कार्य साफ़ और सुंदर अक्षरों में लिखिए ।

2. कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न-उत्तर अपनी हिंदी कॉपी में लिखिए ।

उपरोक्त लेखन सामग्री घर में ही रहकर तैयार की गयी है ।

+++++